



बिहार गजट

असाधारण अंक

बिहार सरकार द्वारा प्रकाशित

28 आश्विन 1932 (श0)
(सं0 पटना 714) पटना, बुधवार, 20 अक्टूबर 2010

ऊर्जा विभाग

अधिसूचना

10 सितम्बर 2010

सं0 प्र02/बोर्ड वि0-07/04-25—ऊर्जा विभाग के अधिसूचना 14, दिनांक 30 जून 2010 के क्रम में विद्युत अधिनियम 2003 की धारा-172 की उप-धारा (ए) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए बिहार सरकार, विद्युत मंत्रालय भारत सरकार के पत्रांक 25/20/2004-आर0 एण्ड आर0, दिनांक 16 अगस्त 2010 द्वारा संसूचित सहमति के आलोक में एतद् द्वारा बिहार राज्य विद्युत बोर्ड को उत्तरवर्ती बिहार राज्य के लिए संचरण सेवा संगठन एवं लाईसेंसी का कार्य करने के लिए दिनांक 30 जून 2010 के उपरांत अगामी दिनांक 31 दिसम्बर 2010 तक के लिए तदनुसार बरकरार घोषित करती है।

आदेश:— अधिसूचना को बिहार राजपत्र के असाधारण अंक में प्रकाशित कराया जाय। अधिसूचना की प्रतियाँ सभी विभाग एवं संबंधित पदाधिकारियों को प्रेषित की जाय।

बिहार—राज्यपाल के आदेश से,
(ह0)—अस्पष्ट,
सरकार के संयुक्त सचिव।

अधीक्षक, सचिवालय मुद्रणालय,
बिहार, पटना द्वारा प्रकाशित एवं मुद्रित।
बिहार गजट (असाधारण) 714-571+100-डी0टी0पी0।
Website: <http://egazette.bih.nic.in>